



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) (11)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 412] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1978/भाद्र 10, 1900

No. 412] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1978/BHADRA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1978

का. आ. 540(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 211 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय की कृषि या प्रसंस्करण, या दोनों, में लगी कम्पनियों को लाभ-हानि लेखों में, उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 के भाग 2 के पैरा 3(2) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) में उल्लिखित सूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रकट करने से छूट देती हैं, अर्थात् :—

- (1) लाभ-हानि लेखों में ऐसी कम्पनियों द्वारा उत्पादित और प्रसंस्कृत हुयी पत्ती वाली चाय की मात्रा और अन्य विशिष्टियाँ (जिसमें मुख्य सम्मिलित नहीं

हैं) पृथक् रूप से, साथ में उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जिससे उक्त लाभ-हानि लेखा संबंधित है, उसके आरम्भक और अंतिम स्टॉक प्रकट किए जाएंगे।

- (2) स्रोत के बाहर से क्रय की गई हरी पत्ती वाली चाय, यदि कोई है, की बाबत ऐसी कम्पनियां अपने लाभ-हानि लेखों में इस प्रकार क्रय की गई और प्रसंस्कृत हरी पत्ती वाली चाय की मात्रा और अन्य विशिष्टियां तथा उसके आरम्भक और अंतिम स्टॉक के प्रकटन के अतिरिक्त, क्रय की गई चाय का मूल्य भी प्रकट करेंगी।

2. यह अधिसूचना गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 5/7/78-सी एल-5]

ए. नीलकान्तन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1978

S.O. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby exempts companies engaged in the cultivation or processing of tea, or both, from disclosing in the profit and loss account the information mentioned in sub-clause (1) of clause (a) of para 3(ii) of Part II of Schedule VI to the said Act subject to the following conditions, namely :—

- (1) The profit and loss account shall disclose the quantity and other particulars (not including the value) of green leaf tea produced and processed by such companies separately together with the opening and closing stock thereof during the financial year to which the said profit and loss account relates.
- (2) In respect of green leaf tea, if any, purchased from outside source, such companies shall also disclose in their profit and loss account the value of the tea purchased in addition to the disclosure of the quantity and other particulars of the green leaf tea so purchased and processed, and the opening and closing stock thereof.

2. This notification shall remain in force for a period of three years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/7/78-CL. V]

A. NEELAKANTAN, Jt. Secy.